


**थाना बढापुर पुलिस द्वारा 03 अभिगण, चोरी की गयी 02 भैस व 01 कटरा ,  
घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, मोटरसाईकिल तथा अवैध शस्त्र सहित  
गिरफ्तार ।**

**मु0अ0सं0- 267/2020 धारा 379/411 भादवि (भैस चोरी) बनाम तन्जीम उर्फ भूरे आदि 03 नफर  
गिरफ्तारी दिनांक:- 27/09/2020 समय:- 18.30 बजे घटना स्थल:- जंगल ग्राम तारापुर**

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता**

- 1.तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने नि0 उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर
- 2.दिनेश पुत्र हीरा सिंह नि0 ग्राम सादातपुर थाना बढापुर जिला बिजनौर
- 3.जीशान पुत्र मौ0 उमर नि0 मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जिला बिजनौर



## बरामदगी का विवरण

- 1- चोरी गयी 02 भैस , 01 कटरा ,
- 2- चोरी में प्रयुक्त किया गया वाहन छोटा हाथी (TATA ACE) न0 UP20T7202
- 3- एक मो0सा0 होंडा लीवो न0 UP20 BJ7050
- 4- अभियुक्त तन्जीम उर्फ भूरे व दिनेश से एक-एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक-एक कार0 जिन्दा 315 बोर

## पंजीकृत अभियोगो का विवरण

- 1.मु0अ0सं0 267/2020 धारा 379/411 भादवि बनाम तन्जीम उर्फ भूरे आदि 03 नफर उपरोक्त
- 2.मु0अ0सं0 268/2020 धारा 3/25 A ACT बनाम तन्जीम उपरोक्त
- 3.मु0अ0सं0 269/2020 धारा 3/25 A ACT बनाम दिनेश उपरोक्त

## घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26-27/09/2020 की रात्रि में श्री गजराज सिंह पुत्र गेंदा सिंह नि0 बासोवाला थाना बढापुर जिला बिजनौर के घर के बाहर बंधी एक भैस व वादी के भाई पवन सैनी के घर के बाहर बंधी एक भैस व एक कटरा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 267/2020 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुये टीमें गठित कर अभियोग के अनावरण एवं चोरी गये पशुओ की बरामदगी हेतु तलाश की गयी । दिनांक 27/09/2020 की शाम 18.30 बजे ग्राम तारापुर के जंगल से अभियुक्तगण 1.तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने नि0 उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर 2.दिनेश पुत्र हीरा सिंह नि0 ग्राम सादातपुर थाना बढापुर जिला बिजनौर 3.जीशान पुत्र मौ0 उमर नि0 मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जिला बिजनौर को मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी भैसो को छोटे हाथी में लाधकर ले जाने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 02 भैस व 01 कटरा , चोरी में प्रयुक्त किया गया वाहन छोटा हाथी (TATA ACE) न0 UP20T7202 व एक मो0सा0 होंडा लीवो न0 UP20BJ7050 एवं अभियुक्त तन्जीम उर्फ भूरे व दिनेश से एक-एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक-एक कार0 जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया ।

## पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त तन्जीम उर्फ भूरे से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे खिलाफ कोतवाली देहात पर कई मुकदमे पंजीकृत है व थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर भी हू जिस कारण पुलिस की निगाह मुझपर बनी रहती है इस कारण मैंने थाना कोतवाली देहात छोडकर अपनी ससुराल मौ0 नौमी कस्बा बढापुर मे रहकर जनपद के अन्य थानो मे अपराध कारित करता हूँ जिसमे मैं अपने साथी दिनेश व अपने साले जिशान के साथ मिलकर जानवरो की चोरी कर छोटे हाथी मे लादकर बछरायू जनपद अमरोहा में फैक्ट्री मे ले जाकर बेच देते है। जो पैसे मिलते थे उन्हे आपस मे बाट लेते थे। जिससे हमारे घर का खर्च व शौक आसानी से पूरे हो जाते थे।

## आपराधिक इतिहास:-

### 1. अभियुक्त तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने नि0 उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर

1. मु0अ0सं0 144/17 धारा 302/323/504/452 भादवि थाना कोतवाली देहात

2. मु0अ0सं0 03/11 धारा 392/323/324/504/506/427 भादवि थाना कोतवाली देहात
3. मु0अ0सं0 72/11 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात
4. मु0अ0सं0 128/11 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कोतवाली देहात
5. मु0अ0सं0 04/20 धारा 506 भादवि थाना कोतवाली देहात
6. मु0अ0सं0 106/20 धारा 452/323/504/506 थाना कोतवाली देहात
7. मु0अ0सं0 267/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर
8. मु0अ0सं0 268/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बढापुर

## **2. अभियुक्त जीशान पुत्र मौ0 उमर नि0 मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जिला बिजनौर**

1. मु0अ0सं0 267/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर

## **3.अभियुक्त दिनेश पुत्र हीरा सिंह नि0 ग्राम सादातपुर गढी थाना बढापुर जिला बिजनौर**

1. मु0अ0सं0 267/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर
2. मु0अ0सं0 269/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बढापुर

## **पुलिस टीम का विवरण**

- 1.निरीक्षक अपराध श्री हरिनाथ सिंह
- 2.उ0नि0 श्री जीत सिंह
- 3.उ0नि0 श्री विनोद कुमार राठी
- 4.का0 1264 सविन्द्र कुमार
- 5.का0 858 प्रदीप कुमार
- 6.का0 1226 मोनू यादव

**थाना नगीना:**— आज दिनांक 28.09.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा फरहाद पुत्र निसार निवासी ग्राम हकीकतपुर थाना नगीना को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 460/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।



**थाना स्योहारा:—** आज दिनांक 28.08.2020 को थाना स्योहारा अभि०गण सुखदेव पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह, मोहित कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम धनगर पुर थाना जनपद बिजनौर अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



**थाना को०देहात:—** आज दिनांक 28.09.2020 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र मुन्ना निवासी मोहल्ला सादात कोतवाली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



**नोट:-** आज दिनांक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंको/संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिंग की गयी।

